

केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय: सूरत
C.G.S.T. & Central Excise Commissionerate: Surat
 केंद्रीय सी.जी.एस. बिल्डिंग, गाँधी बाग, चौक बाजार, सूरत- 395001
 C.G.S.T. Building, Opp. Gandhi Baug, Chowk Bazar, Surat



कार्यालय परिपत्र

आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 01 से 14 सितम्बर, 2021 तक केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क सूरत आयुक्तालय में 'हिंदी पखवाड़ा' मनाया जा रहा है। राजभाषा विभाग के पत्रांक-11034/07/2021-रा.भा.(नीति), दिनांक 10 अगस्त, 2021 के अनुसार सितंबर, 2021 में हिंदी दिवस/ सप्ताह / पखवाड़ा/ माह के आयोजन के संबंध निर्देश प्राप्त हुए हैं कि भारत सरकार द्वारा कोरोना संबंधी जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 'हिंदी दिवस' के शुभ अवसर पर सितंबर, 2021 में हिंदी दिवस /सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह का आयोजन/प्रतियोगिताएं पूर्ण जुर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित कि जाएं। इस अ.शा.पत्र की मद सं. 07 के अनुक्रम में 14 सितंबर, 2021 के अवसर पर 'राजभाषा प्रतिज्ञा' लें ताकि हम संविधान द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

उक्त अनुक्रम में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, रा.भा. विभाग के पत्रांक-11034/02/2019-रा.भा. (नीति), दि: 31 जुलाई, 2020 के बिदु संख्या 06 के अनुसार कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया(एसओपी) को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को यथासंभव ऑनलाइन तरीके से आयोजित कराने के लिए प्रयास किये जाएं।

केंद्र सरकार के उक्त दिशा निर्देशों का ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय ने इस वर्ष खुला मंच हिंदी निबंध एवं परिपत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश जारी किये हैं। इसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने मंडल/अनुभाग में ही रहकर निम्नलिखित विषय पर हिंदी में निबंध एवं परिपत्र लिखने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को निम्न विषय पर हिंदी में एक निबंध और एक परिपत्र लिखने हेतु ई मेल/वाट्सएप पर दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी नियत तारीख को लिखित निबंध एवं परिपत्र को ईमेल/वाट्सएप के माध्यम से हिंदी अनुभाग द्वारा एकत्रित कर लिए जाएंगे। हिंदी निबंध एवं परिपत्र निम्न प्रकार हैं:-

1. राजभाषा निबंध :- 'आजादी(75 वाँ) का अमृत महोत्सव'-2021 शब्द सीमा- 500

2. कार्यालय परिपत्र :- स्वयं को कार्यालय प्रभारी मानते हुए 'कोविड-19 महामारी से बचाव एवं स्वच्छता मानकों के सह-संबंध पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया(एस.ओ.पी.) का विधिवत पालना करने हेतु सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को हिंदी में एक कार्यालय परिपत्र(Official Circular) जारी कीजिए।

उक्त राजभाषा निबंध एवं परिपत्र लेखन की खुली मंच प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए पांच-पांच पुरस्कार रखे गए हैं। इस प्रकार उक्त प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सात वना-1 एवं सात्वना-1। इत्यादि पुरस्कार के साथ-साथ सभी प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए 'प्रशस्ति प्रमाण पत्र' दिए जाएंगे। अतः विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी नकद पुरस्कार राशि हेतु कुल राशि रुपए-20,000/-(बीस हजार रुपए मात्र) वितरित किये जाएंगे है। पुरस्कार राशि का विवरण एवं कार्यक्रम निम्न तालिका में इस प्रकार हैं :-

खुला मंच राजभाषा प्रतियोगिता

राजभाषा निबन्ध				पत्र/परिपत्र लेखन	
क्रम सं.	पुरस्कार	राशि(रु)	दिनांक	राशि(रु)	दिनांक
1.	प्रथम	4000	09 सितंबर 2021 (गुरुवार)	2500	13 सितंबर 2021 (सोमवार)
2.	द्वितीय	3000		2000	
3.	तृतीय	2500		1500	
4.	सांत्वना-I	1500		1100	
5.	सांत्वना-II	1000		900	
कुल राशि(रु)		12000		8000	20,000/ रु.

आयुक्तालय, सूरत के सभी अधिकारी एवं कर्मी उपर्युक्त प्रतियोगिताओं में अनिवार्यतः भाग लेकर राजभाषा हिंदी के विकास में योगदान करें। स्वयं द्वारा लिखित राजभाषा निबंध एवं कार्यालय परिपत्र को प्रतियोगी अपना नाम, अनुभाग/मण्डल, मातृभाषा इत्यादि लिखकर नियत उक्त तारीख अपराह्न-5.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी अथवा हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुभाग, कमरा नं.101, प्रथम तल, 'B' ब्लॉक, मुख्यालय, सूरत में शीघ्रातिशीघ्र भेज दें अन्यथा विचार नहीं किया जाएगा।

मण्डल/अनुभाग प्रभारी उक्त प्रतियोगिताओं का पूर्ण सक्रिय पर्यवेक्षण के साथ सफलतापूर्वक आयोजन कराएं। अन्य जानकारी के लिए श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अनवाद अधिकारी दूरभाष सं. 0261-2462722, मोबाइल सं. 9998875680 पर संपर्क कर सकते हैं। ई मेल - cgstsurat-hindi@gov.in

संयुक्तआयुक्त(रा.भा.)

के.माल व सेवाकर एवं उ.शु. आयुक्तालय,सूरत

सेवा में

1. सहायक आयुक्त/उपायुक्त-सभी मंडल-I/ II/ III/ IV/ V/ VI/ VII/ VIII/ IX/ X/ XI/ XII,
केंद्रीय माल व सेवाकर एवं उ.शु. आयुक्तालय, सूरत
2. सभी अनुभाग, के.माल व सेवाकर एवं उ.शु. आयुक्तालय,सूरत